



September 06, 2023

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

Fax: 022-26598235/36

NSE Symbol: VIKASECO

Listing Compliance Department BSE Limited. Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 530961

SUB: INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE AND ANNUAL REPORT OF 38^{TH} AGM AND SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice and Annual Report for calling 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company has been dispatched through National Securities Depository Limited (NSDL) by e-mail on Tuesday, September 05, 2023 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members as on Friday, September 01, 2023.

The 'Notice of AGM, E Voting information and Book Closure' has been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated Wednesday September 06, 2023. A copy of the publication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Yours Faithfully,

For Vikas Ecotech Limited

RAJEEV Digitally signed by RAJEEV KUMAR KUMAR

Rajeev Kumar Executive Director DIN: 10271754



Classifieds

PERSONAL

I.Varda Hamid,D/o Abdul Hamid, R/O H.No. 94, Johni Farm, Jamia Nagar, Noor-Nagar Extn.Okhla,New Delhi-110025, have changed my name to Warda Hamid, permanently.

0040687370-7

I,Satyavir Singh,S/o Saroop Singh, R/o H.No.291, Opp To Purani Chopal, Rani Khera, Delhi-110081, have changed my name to Satyavir Singh Dabas. 0040687375-10

I,Sanjeev Kumar S/o Om Prakash Chawla R/o H.No.5K-121.NIT Faridabad-121001. Haryana, have changed my name to Sanjeev Chawla, permanently.

0040687315-10

I.Rafeek Ahmad.S/o Moinudeen, R/o 90/A, Haddu Mohalla, Madanpur, Khadar, Sarita Vihar, New Delhi-110076, have changed my name to Mohammad Rafiq, permanently.

I.Pritam Kumar S/o Shailesh Kumar R/o,H.No.5A/64, Gali-No.19, Nangli Vihar, Baprola, New Delhi-110043, that name of my-father has been wrongly-written as Shailesh Mahto in my Educational Documents. The actual-name of my-father is Shailesh

0040687388-9

I,Payal W/o Surjeet Singh R/o 9/325, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Payal

Kumar.

0040687388-8

I.Kameshwar Sahu.S/o Somaru Sha,R/o B-40,Sahyog Vihar, Near Matiyala-Village, Uttam-Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Kameshwar Sha, permanently.

0040687315-9

I Tejesvi Yadav S/o Ajay Yadav R/o-D-138II, Yamunapuram, Distt.-Bulandshahr (UP)-203001, have changed my name to Teiasvi Yadav for all purposes.

0070862795-1

I,BALWINDER CHHABRA W/o KAWAL JEET SINGH R/o-40, Ram, Nagar, Krishna Nagar H.O, Delhi-110051, declare that name of mine and my husband and my minor daughter has been wrongly written as BALWINDER KAUR, KAWALJEET SINGH and BALNEET KAUR in my minor daughter BALNEET KAUR CHHABRA aged,14,Years in her school records. The actual name of mine my husband and my minor daughter are BALWINDER CHHABRA, KAWAL JEET SINGH and BAL-**NEET KAUR CHHABRA**

0040687370-10

PUBLIC NOTICE My client Mrs. Kulwinder Kaur alias Kulvind Kaur W/o Sh. Gurdev Singh R/o 113-B, DDA MIG Flats, Rajouri Garden, New Delhi 110027, do hereby notify for public at large imt. Kartar Kaur W/o S. Tarlok SinghR/o 11l, DDA MIG Flats, Rajouri Garden, New Delf 110027 after her death who Kartar Kaur expired on dated 15.04.2009 as per her wil deed made on date 27/05/2008, in favor of ner daughter-in-law Mrs. Kulwinder Kaur alia Kulvinder Kaur only, any person/s have any objection/claim(s) interest for the will deed registration of aforesaid will of Late Smt. Kartar Kaur W/o S. Tarlok Singh may conta the undersigned within 05 days from the publication of this notice, falling which the aim of any of such person will be conside to have been waived and/or abandoned and the will deed shall be registered and application with immediate effect. Akshay (Advocate)

(MOB NO-9999034619)

https://nseindia.com.

PUBLIC NOTICE ubec at large are hereby informed that my cli-nt. Asha Wio Shri Sarjit R/o H. No. 133, Str m Mr. Ravinder Singh & Smt. Murti Devi (a

firming Party) and ATS also executed on di

dress mentioned below and If any person, wh as got, rights, interest, fille, claim, encumbrances

arges of any nature whatsoever in respect of the

bove said Property or any part thereof, can sen

eir objections with their documentary evidence a slow address within 7 days from the date of

ublication of this notice, failing which, it shall b

esumed that the said Property in entirely is the

cumbrances etc. Sahil Virmani (Advocate

Add.: G-721, Karkardooma Court, Delhi Mob: 8929535407, 9643394303, 01143045407

PUBLIC NOTICE

his is to notify the General Public tha

Smt. Pratibha Sharma w/o Sh

Pradeep Kumar Sharma both R/o

. Dg2/268-A, Vikaspuri, New Delhi-

10018, have debarred and disowned

their son Vaibhav Sharma and his wife

Smt. Sunita Pandey from all their

Movable & immovable properties with

mmediate effect. Anybody dealing with

them in any manner shall do so at his

her own cost, risk & responsibility. My

any acts, deeds & things done by them

clients shall be in no way responsible for

Chamber No. 788, Western Wing,

Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Anil Kuma

Malik S/o Late. Sh. Bishamber Lal R/o

A-2A/207, Janakpuri New Delhi - 110058

Mutateeowner/allottee of Flat No.A-2A

207, Janakpuri New Delhi 110058, ha

applied for conversion of the aforesaid

flat from leasehold to freehold vide

application No. DDAHCA94615506

dated, 25-06-2023 in DDA. The original

Demand Cum allotment letter and

original DDA possession letter of the

above flat have been lost an FIR on this

effect has been lodged in the Police

Station Crime branch Delhi vide L.R.

Any person claiming any right interest

having any objection or found in

possession of original documents

persons at above address/phone No.

7982123425 within in 15 days from

the date of publication of this notice

The persons claiming any right

interest, objection with respect of this

property can personally inform or write

to Dy. Director (LAB) Housing or

Director (H) D- Block Third floor, Vikas

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking

Mini Ratna Company)

any manner whatsoever.

MATIONAL SEEDS

CIN No.U74899DL1963GOI003913

RO: Block-AQ, Plot -12, Sector-5,

Salt Lake, Kolkata-700 091

Ph. 033-2367-1077 / 74,

E-mail: nsc.kolkata.ro@gmail.com

सं.:- प्रज्ञा - 07/एन.एस.सी. : कोल/2023-24/ दिनांक : 05-49-2023

नोटिस

e-Tender Notice for Hiring approx. 3000 sq.ft. – 4000 sq.ft. of Godown Space for Storage and Processing of Seeds, within the distance of approx. 10 – 15 KMs from Sainthia / Nalhati (Dist. Birbhum), West Bengal.

For details, please visit NSC's website

www.indiaseeds.com under Public

Bids for above tender must be

submitted at NSC e-Portal:

https://indiaseeds.enivida.com

latest by 15:00 Hrs. of 26-09-2023

Corrigendum / addendum, if any, shall

PHANTOM DIGITAL EFFECTS LIMITED

CIN: L92100TN2016PLC103929

Registered Office :- 6th Floor, Tower B, Kosmo One Tech

Plot No.14, 3rd Main Road, Ambattur, Chennai, Tamilnadu 600058

Tel; 044-4384 6228, Email ID: cs@phantom-fx.com, Website www.phantomfx.com

NOTICE OF THE 07TH ANNUAL GENERAL MEETING. INFORMATION OF REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Seventh Annual General Meeting ("AGM") of PHANTOM DIGITAL EFFECTS

LIMITED (the "Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM')

on Wednesday, 27th day of September, 2023 at 3.30 p.m. (IST) in compliance with all the applicable provisions of

the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the general

circulars in respect of on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other

audio visual means (OAVM) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") from time to time to

transact the business listed in the Notice convening the AGM of the Company. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://www.evoting.nsdl.com/. Members participating in the meeting through

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent only by email to all those Members, whose email ids are registered with the Company/Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at https://phantomfx.com/, on the website of the E-voting Partner National Securities Depository Limited (NSDL) at

https://www.evoting.nsdl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing

Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on 20th September, 2023 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by NSDL. The voting rights of

members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the

cut-off date. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the

AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote

at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only. In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice,

but on or before the cut-off date for e-Voting, i.e., 20th September, 2023 such person may obtain the User ID and

The instructions for joining the 07th AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting

The remote e-voting period commences on 24th September, 2023 (10.00 A.M.) and ends on 26th September 2023, (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During the remote

e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or

The Company has appointed M. Sudhakar, Practicing Advocate, Chennai having Enrollment number: MS.3908/2021 to act as Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and voting during the AGM in a fair

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before/during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai — 400 013 or call on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact : Ms. Prajakta Pawle - 022 - 4886 7000

NOTICE is also hereby given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the provisions of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall

remain closed from Monday, September 25, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for

or casting vote through electronic means at the said AGM are provided in the Notice convening the AGM.

VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

Password from NSDL by e-mail request on evoting@nsdl.co.in for all future communication.

क्षेत्रीय प्रबंधक

एन.एस.सी., कोलकाता

only be published in NSC's website.

Sadan, New Delhi - 110023

NO. 862864/2023 dated 05-09-2023.

Sd/- SANJAY KAPOOR

my Client Sh. Pradeep Kumar Sharma

2.05.2023; Along with taking a Loan from Sat Online Tenders are invited for OPERATIONS susing Finance Limited against said property i.e. Built up Property Bearing no. 136-A/1, Area B1 so yds., Out of Khasra no. 345, Situated at Village o MAINTENANCE OF 33 KV SUB STATION, ELECTRICAL nonda Gujran Khadar, In the abadi of Gali no. 2 INSTALLATIONS & DG SET AT MPSEDC OF FICES. amri, Illaqa Shahdara, Delhi-110053; said roperty is owned by Mr. Ravinder Singh vide BHOPAL. Interested eligible bidders can view/download the Notarized GPA, SPA (Regd. No. 10734), Notarized ATS, Will (Regd. No. 3455) dated 30.11.2005 Tender Document on www.mptenders.gov.in. First time cuted by Smt. Murti Devi in respect of sail operty area 162.5 sq. yds., hereinafter referre users of this portal will be required to register online with as "said property" The Papers regarding this roperty submitted to Satin Housing Finance payment of registration charge. imited Along with Lost Doc. i.e. A. Original Sal Deed (Regd. No. 85) dt. 11.01.1968 executed b nt. Saroopi in favour of Shri Dhiraj Singh, espect of said property area 325 sq. yds.; B Original Relinquishment Deed dt. 04.11.2009 secuted by 1. Shri Virendra Singh, 2. Sh avinder Singh, 3. Shri Bijender Singh and 4. Sh tarvinder (sons) of Late Shri Dhiraj Singh in favou f Smt. Murti Devi Wio Late Shri Dhiraj Singh i respect of said property, duly regd. As doc. no. 845 Vol. no. 4214, on pages 45 to 49 on dt. 04.11.2009 his documents has been lost somewhere for that Shri Ravindra Singh alias Ravinder Singh Filed e-5.09 2023 at Delhi Police, and it is not traceable.

M.P. STATE ELECTRONIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD. State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.) Tel.: 0755-2518300/742

Ref No.: MPSEDC/P&A/2023/523

Email: marketing@mpsedc.com website: www.mpsedc.mp.gov.in M.P. Madhyam/111821/2023

Project Director

NOTICE INVITING TENDER

Dated: 05.09.2023

JINDAL POLY FILMS LIMITED

[CIN No. L17111UP1974PLC003979] Registered Office -19th K.M Hapur Bulandshahr Road, PO Gulaothi, Distt. Bulandshahr (UP). Corporate Office: Plot No. 87,Institutional Area Sector-32, Gurugram, Haryana- 122001 Email id- cs_jpoly@Jindalgroup.com; Website- www.jindalpoly.com Telephone No: 0124-6925100, 0124-6570325

> NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that 49th Annual General Meeting of JINDAL POLY FILMS LIMITED will be held on Friday, September 29, 2023 at 02:00 p.m. at Hotel Natraj, Kala Aam, Delhi Rd, Civil Lines, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001, to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 49th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, and rules framed thereunder(

Pursuant to provision of section 101 and 136 of the Act and rules made thereunder Regulation 36 of SEBI Listing Regulations and in terms of MCA Circulars and SEBI Circulars. Notice of the 49th AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent by e-mail on **September 05**, **2023** through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories.

Further, Notice of the 49th AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent through Courier, to those members whose email addresses are not registered with the Company /Depositories, on September 05, 2023.

Members may note that the Notice of the 49th AGM along with Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website https://www.jindalpoly.com/downloadreports, websites of the Stock Exchanges, i.e., Bombay Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com/

in respect of shares held in electronic form with the Depository through their depository participants and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal Hyderabad, Telangana-500032. As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies

Members who have not registered their email address are requested to register the same

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is providing to its shareholders the facility to cast their votes through remote e-voting $\,$ and voting at Venue of the 49 $^{ ext{ t h}}$ $\,$ AGM $\,$ on all the resolutions set forth in the Notice, the detailed procedure of which is provided in the instruction part of the Notice.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the said cut-off date i.e. Friday 22nd September 2023, may cast their vote electronically, in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the 49th AGM through the **remote e-voting** or voting through ballot/polling paper during the 49th AGM.

The remote e-voting facility shall commence from Tuesday, 26th September 2023 (9:00 A.M.) to Thursday, 28th September 2023 (5:00 P.M.), same shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period. Once the Member have cast their vote through remote e-voting, he will not be allowed to modify his vote subsequently. Members may attend the 49th AGM even after casting their vote by remote e-voting facility but shall not be entitled to cast their vote again during the 49th AGM.

Those Members, who are present in the 49th AGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to avail the facility of voting through **ballot/polling paper** during the 49th AGM.

In case a person has become member of the company after dispatch of the 49thAGM notice but on or before the cutoff date for E-voting i.e. Friday, September 22, 2023, such members may obtain the user ID and Password by sending a request in such a manner as provided in instructions part of the Notice.

All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts thereof and the Statutory Registers, will be made available for inspection by the Company and as such the Members are requested to send an email to cs_ipoly@jindalgroup.com requesting for relevant documents In case of any query/grievance relating to remote e-voting or voting through Ballot/polling

paper at the 49th AGM, Members may refer to the help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://e-voting .kfintech.com (KFintech website) or contact D Suresh Babu, Senior Manager, KFin Technologies Private limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, , Financial District, Nankramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad 500-032 or send an email to einward.ris@kfintech.com or call on 1800 3094 001.

Book Closure Notice is hereby given that in pursuance to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with Regulation 42 of Listing Regulations the register of members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Friday 29th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

ISIN of the company is INE197D01010. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

By order of the Board of Directors **Jindal Poly Films Limited**

Vaishali Singh Place: New Delhi **Company Secretary** Dated: 05th September 2023

ACS: 15108

PURAVANKARA LIMITED

(CIN: L45200KA1986PLC051571) Registered Office: No. 130/1, Ulsoor Road, Bangalore - 560 042 Tel: 080 2559 9000/4343999 Email: info@puravankara.com Website: www.puravankara.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Members of Puravankara Limited will be held on Friday, 29th September 2023, at 02:00 P.M (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening AGM. The Company has already dispatched the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Notice convening AGM through electronic mode to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company and/ or Depositories in accordance with the Circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at https://www.puravankara.com/backend/ assets/uploads/investors_reports/f2d483df9292c614f1fc6c2b99ec1e84.pdf and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at http://www.evoting.nsdl.com Remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NDSL. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 22 September 2023 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Tuesday, 26th September 2023 at 9.00 a.m. IST and will end on Thursday, 28th September 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, the Shareholders may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NDSL thereafter. Those Shareholders who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cutoff date; may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. However, If he/she is already registered with NDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

In case of any queries, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members

and the e-voting user manual for members available in the 'Downloads' section of https://www.evoting.nsdl.com. You can also mail your queries to NSDL by sending an email to evoting@nsdl.co.in., or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and The details of the AGM are available on the website of the Company a

https://www.puravankara.com/backend/assets/uploads/investors reports/f2d483df9292c 614f1fc6c2b99ec1e84.pdf. NSDL at evoting@nsdl.co.in, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Date: 05.09.2023

(Sudip Chatterjee) Place: Bangalore **Company Secretary and Compliance Officer**

For Puravankara Limited



CIN: L65999DL1984PLC019465

Registered Office: 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 Tel No. 011 4314 4444 | Email: cs@vikasecotech.com Website: www.vikasecotech.com

Notice of Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the

members of Vikas EcotechLimited will be held on Friday, September 29, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM of the Company Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice and Annual Report

of 38thAGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Tuesday, September 5, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikasecotech.com Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 38th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 38thAGM of the Company In this regard, the members are hereby further notified that:

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the Annual General Meeting is September 22, 2023.

The remote E-voting period will commence from September 26, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2023 at 5:00 P.M.(IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period.

The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54orsend an e-mail to ivote@bigshareonline.com

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM

The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in

you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at

https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to vote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

For Vikas Ecotech Limited Vikas Garg Date: September 5, 2023 Managing Director (DIN: 00255413)

Place: New Delhi

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी (म.प्र.)

क्र./115/मुख्य स्टोर्स/2023-24

🛕 इलाहाबाद

Name of the Borrower /

Date: 05-09-2023, Place: Gurgaon

निविदा आमंत्रण सचना

कटनी, दिनांक :- 04/09/2023

नगरपालिक निगम अंतर्गत जेम के माध्यम से नलकुपों में स्थापित स्टार्टरों की रिपेरिंग हेतु सामग्री क्रय किया जाना है।। जिस हेत जेम पर निम्न विवरण अनसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र .	टेण्डर क्रमांक जारी	क्रय सामग्री का विवरण	निविदा जारी होने की तिथि	निविदा की अंतिम तिथि
1.	BID No GEM/2023/B/ 3881838	Tubewell starter repairing item	04.09.2023	25.09.2023

नोट : निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जेम पोर्टल पर उक्त बिड क्रमांक के माध्यम से देखी जा सकती है।

ALLAHABAD

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिक निगम, कटनी

NOTICE

RHL PROFILES LIMITED CIN: U27104UP1987PLC009209

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Regd. Office:-Somani Bhawan, 51/27, Nayagani Kanpur-208001 Corporate Office: 4th Floor, 63/2, City Centre, The Mall, Kanpur-208001 Phone No.:- 9839146442 Email Id:- cs@rhlprofiles.com, Website: www.rhlprofiles.com

NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on Friday, 29th September, 2023 at 2:30 pm at City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote evoting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has ngaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 05.09.2023. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register

of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 22nd September 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 at 9:30 a.m. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5:00 pm. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 28.09.2023. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company, & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company www.rhlprofiles.com & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any queries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and became member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, RHL Profiles Limited, 63/2, City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 9839146442 email: cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password. For RHL Profiles Limited

Place: Kanpur Date: 05.09.2023

Krishan Kr. Somani (Managing Director) DIN: 01414928

SAMRAT FORGINGS LIMITED

CIN: L28910PB1981PLC056444 Regd. Office: Village & P.O. Ghoļlu Majra, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali, Punjab - 140506 Ph: +91-9257240444, E-mail: info@samratforgings.com Website: www.samratforgings.com NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, the 30th day of September, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual means (OAVM) As per the General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May

2020, 02/2021 dated 13th January 2021,21/2021dated14th December 2021,02/2022 dated 5th May,2022 and 10/2022 dated 28th December 2022 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and

collectively referred to as "the Circulars"), the Companies are allowed to hold AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Hence the 42nd AGM of the Company is being held through VC / OAVM. Members attending the 42nd AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013. In accordance with the Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022 - 23 have been

issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter

SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023

sent on 5th September, 2023, to all the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants/RTA. The Annual Reportingluding Notice of AGM is also available on the website of the Company at https://samratforgings.com/wpcontent/uploads/2023/09/Annual Report

 2022-23.pdf, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of CDSL www.evotingindia.com. The Company has engaged the services of Central Depository

Services (India) Limited ("CDSL") and providing to its Members the facility to exercise their right to vote at 42nd AGM by electronic means (remote e-voting). The remote e-voting facility shall commence on 27th September, 2023 at 9:00 AM and shall end on 29 th September, 2023 at 5:00 PM. The members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting through electronic means during the AGM is 23rd September, 2023. Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to vote, either through remote e-voting or through e-voting during the AGM. For details relating to remote e-voting and e-voting during the AGM and instructions for joining the AGM through VC / OAVM, please refer to the Notes forming part of the Notice of AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e.23rd September 2023 may obtain User ID and password by sending a request at

the Frequently Asked Questions (FAQs)and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. Members holding shares in physical form and have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending copy of the following documents by e-mail to Company's Registrar and Share Transfer Agent Mas Services Limited at investor@masserv.com or to the Company at sandeepsharma@samratforgings.com:

helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company's Registrar and

queries relating to voting by electronic means, members may refer to

Share Transfer Agent at investor@masserv.com. In case of any

 a) A request letter in the prescribed Form ISR-1 (prescribed vide SEBI circular dated 03.11.2021) mentioned the relevant details such as name, folio number and complete address; b) Scanned copy of Share Certificate (front and back);

c) Self attested scanned copy of PAN card.

Members holding shares in dematerialized form are requested to

register their email addresses with their Depository Participant (DP). Members are requested to update their address, bank account particulars and other details by submitting the required documents in this regard to the RTA of the Company in case of physical shares and to the respective depository participants in case of demat shares. The procedure in this regard and requisite forms/documents are available at the website of the Company and can be referred from there. Pursuant to Section 91of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from 26th September, 2023 to 30th September, 2023 (both days

The Board has not recommended any dividend for the Financial Year 2022-23. For Samrat Forgings Ltd Place: Derabassi

Date: 05.09.2023

inclusive) for the purpose of AGM.

(Sandeep Kumar) Company Secretary

Detail of



इंडियन बैंक Indian Bank

ZONAL OFFICE GURGAON, Plot No. 16, IRCON Tower, 4th Floor, Sector-32, Gurugram-122003 Corporate office: 254-260, AVVAI shanmugam Salai, Royapettah Chennai-600014

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to

Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on below mentioned for recovery of dues. The specific details of the properties intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

S. No.	Partners / Proprietor / Guarantor / Mortgagor / Director Hypothecator / Legal Heirs	Details of Immovable/ Movable Property/ies	PROPERTY ID	Amount of Secured Debt	Earnest Money Deposit Min Incremental Account		Date and Time of e-Auction	Name of Authorized Officer	encumbrance on property, if any known to Bank Not Known to Bank
	2. Mr. Naveen Kumar S/o Mr. Surender Singh (Partner & Mortgagor)	Commercial Property (Western Part) M.C. Property ID No. 65C393U783, Khewat no 4662/ 4906, Khatoni no 5355, Khasra No. 7651//(2-2) situated at Main 12 Quarter Road Hisar, Haryana 125001, in the name of Mr. Naveen Kumar S/o Mr. Surender Singh measuring 200 Sq. Yds Possession Type - Symbolic		Rs. 88,16,808.00 as on 24.05.2023 plus further interest with agreed rate from 25.05.2023 & other charges till date of repayment	₹ 8.56 Lac	04-10-2023 (Time :- 10.00 A.M to 5.00 P.M)	11.10.2023 between 11.00 a.m. to 5.00 p.m. with unlimited extensions of 10 minutes each.	Rao	Not Known to Bank

For further details and Terms & Conditions, contact: 1. Akhilesh Kumar Jaiswal (Mobile No. 9198607029) 2. Sh. RAKESH SONI, Manager (Mobile No. 8107500880)

1. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in. 2. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com

financialexp.epapr.in

and transparent manner.

and 022 - 2499 7000

Date: 05.09.2023

Place: Chennai

the purpose of Annual General Meeting of the Company.

By the order of Board of Directors

Pallavi Tongia, Company Secretary

Reserve Price Date and

Authorized Officer, Indian Bank

New Delhi

लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

सीआईएन : एल24117आरजे1979पीएलसी002099 पंजी. कार्यालय : एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय : ए-281, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-40239034 / 35, वेबसाइट : www.lordschloro.com,

ई—मेल : secretarial@lordschloro.com 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन हेत् सूचना दिनांकित 09 अगस्त, 2023 में सूचीबद्ध व्यवसाय निप्पादित किया जाएगा। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, एजीएम के आयोजन की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट समी सदस्यों को दिनांक 04 सितम्बर, 2023 तक मेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति

पर्ची तथा परोक्षी प्रपत्र सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेर आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(स) के पास पहले से दर्ज हैं। सदस्यों को 44 वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर द्वारा

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य, जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया तथा जो ४४वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग विवरण प्राप्त करने वे इच्छुक हैं हमको secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे हमें हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, फोलियो नंबर, पूर्ण पता और पंजीकरण हेतु ई-मेल पता का उल्लेख करते हुए, पैर कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति के साथ भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध करने हेत् अनुरोध पत्र केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट(पार्टिसिपॅट्स) को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक प्रत्येक कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015, समय समय प संशोधित, के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपन वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों से डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है तथा व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग सर्विसेज के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा एजीएम के स्थान से अलग किसी स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के तहत अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है : क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया ज

ख) ई-वोटिंग आरंग होने की तिथि एवं समय : सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 पूर्वा. 9.00 बजे ।

ग) ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे ।

घ) ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की ग्राह्मता निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 है। कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित कर कम्पनी का सदस्य

बनता है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को शेयरधारक है, वह यदि भौतिक रूप में शेयरधारक है तं

evoting@nsdl.co.in या Secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध मेजकर, अपनी क्रम संख्या प्राप्त क सकता है और यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना के "इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग" के रूप में एजीएम की सूचना का नोट नंबर 15 देखें। अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार विवरण ब्धवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग व

2) एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे जिन

सकते हैं, परंतु उन्हें पुन: वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। केवल वहीं व्यक्ति, रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लागार्थी रवामियों अथवा सदस्यों की पंजिका में सूचीबद्ध होगा।

छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, सदस्यगण एजीएम की सुचना में दिए गए अनुदेश देखें और यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग

i) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेत् सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोक्षर परेल, मुंबई-400013 के संबोधित करें अथवा evoting@nsdl.co.in को ई-मेल करें अथवा 1800 102 0990 / 1800 224 430 प

तदद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अधीन यह भी सचना दी जाती है कि सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक, एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद रहेंगी। वास्ते लॉड्सं क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

हस्ता. / -अजय विरमानी प्रबंध निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएनः 00758726

तिथि : 5 सितम्बर, 2023

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड र्नः L74899DL1984PLC019218 एजीएसटीआईएनः 07AAACI0149R1ZB राजि. कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली –110002, फोन: 011-41520070, फैक्स नंबर: 41503479

वेबसाइट: www.indialease.com, ई-मेल: info@indialease.com 38वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुघवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर **12.30 बजे** , पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4/17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 38वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित होने वाली है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों नवीनतम 28 दिसंबर, 2022 को और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों के लिए नोटिस भेजने का काम पुरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत हैं और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.indialease.com पर "वार्षिक रिपोर्ट" स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (https://www. indialease.com/AnnualReports22-23New.html), जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैंयानी बीएसई लिमिटेड www.bscindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की

नियक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्टॉनिक प्रारूप के माध्यम से मतदानः

कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्टॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सविधा के लिए सीडीएसएल को नियक्त किया है, तदनुसार,सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सीडीएसएल द्वारा प्रदान किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

 रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद. सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबा. रा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

 जिन सदस्यों के नाम "कट—ऑफ डेट" यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में दिखाई देते हैं, वे एजीएम में केवल रिमोट ई-मतदान या मतदान जैसा भी मामला हो ,की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत कर लें।

इसके अलावा .कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 38वीं एजीएम के नोटिस के नोट्स के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के संबंध में प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संबोधित किया जा सकता है या 1800225533 पर कॉल किया जा सकता है। बोर्ड के आज्ञानुसार

कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड हस्ता /-रोहित मदान

स्थानः नई दिल्ली प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएफओ दिनांकः ४ सितंबर, 2023

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड सरफॉएसि अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत मांग सूचना पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009,

शाखां कार्यालय : खसरा सं. ४७, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी, दिल्ली-110018 आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्तागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को बंधव वित्तीय अनुशासन को बनाये नहीं रखा उनका प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं। आपकी चूकों के परिणामस्वःप

रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणानेक) / वित्तीय सुविधा(एं) प्राप्त की थीं और आप ने अप आपके ऋण को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के :प में वर्गीकृत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरांत, कंपनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की है, जिसकी विषय-वस्तू को, आपको सूचना से अवगत कराने के वैकल्पिक सेवा—माध्यम के :प में तथा उसके द्वारा, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार यहां निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह-ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना के अंतर्गत अभ्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथ

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : अजय कुमार तनेजा – मकान नंबर बी 343 द्वितीय तल न्यू फ्रेंडस कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली और इसके अलावा कार्यालय 301, तीसरी मंजिल, एनडीएम–1 नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110001 -और भी - दुकान नंबररू- जी1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर- 78 लाडली भवन, केंदार नाथ रोड दरिया गंज दिल्ली-110002 - अंजू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड – जी—1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन कीरनाथ रोड दरिया गंज दिल्ली—110002 दिल्ली – तनेजा टोनर्स प्राइवेट लिमिटेड – जी 1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन केदारनाथ रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002 दिल्ली –अंजू तनेजा – मकान नंबर बी 343 दूसरी मंजिल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली, ऋण खाता संख्याः ४९१४८१; ऋण राशि ः रु. २१५६४४७२.१ / – (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख चौंसठ हजार चार सौ बहत्तर एवं पैसे दस मात्र), मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु 7148274 / – (रुपये इकहत्तर लाख अडतालीस हजार दो सौ चौवहत्तर मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शूल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो दुकान सं.≔ जी−1, ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर –78, लाडली भवन, केदारनाथ रोड दरिया गंज, दिल्ली–110002 में स्थित है संपत्ति 91.63 वर्ग मीटर के अधि क्षेत्रफल के साथ भूतल पर दुकान बनाई गई है, संपत्ति सीमाएँ : उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– सामान्य मार्ग, पूर्व– संपत्ति का हिस्सा, पश्चिम– सड़क।

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं के नाम : आरती इलेक्ट्रॉनिक्स - 142 जी / एफ ओल्ड लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक दिल्ली-110006 दिल्ली -और साथ ही संपत्ति संख्या ए-28. क्षेत्रफल 53 वर्ग गज जो इंद्र नगर दिल्ली–110033 में स्थित मकान – सुमन बत्रा – मकान नं. 28वां तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — दीपक बत्रा — मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक —ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – नरेंद्र बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर | आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – कुलभूषण बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक – ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — कमलेश बत्रा — मकान नंबर 28 मंजिल पहली ब्लॉक — ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली-110033 दिल्ली : ऋण खाता संख्या : 14594036 / 8676258; ऋण राशि रु.1751000 / – (रुपये सत्रह लाख इक्यावन हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 14594036 द्वारा और रु 9000000 / - (रुपये नब्बे लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 8676258 द्वारा, मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशि : रु. 9761385 (रुपये सत्तानबे लाख इकसट हजार तीन सौ पिचासी मात्र) और आकिस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02. 08.2023; प्रतिभृति का विवरण : संपत्ति संख्या ए–28 के समस्त वह भाग तथा अंश, माप 53 वर्ग गज जो इंदिरा नगर, दिल्ली में स्थित है, संपत्ति नरेंद्र बत्रा के नाम पर बिक्री विलेख सं. 1159 दिनांक 03.04.1984 के द्वारा और कुलभूषण बत्रा द्वारा गिफ्ट डीड क्रमांक 1231 दिनांक 21.07.1999

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : गिरीश कुमार श्रीवास्तव – पी 21, सेक्टर –23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश, गौरव क्मार श्रीवास्तव — पी 21, सेक्टर — 23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश — मीरा श्रीवास्तव — पी21, सेक्टर—23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 उत्तर प्रदेश, ऋण खाता संख्याः 974118; ऋण राशिः रु. 2500000 / – (रुपये पच्चीस लाख मात्र), मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशिः रु. 938711 / – (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) 11.08.2023 तक और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 14.07.2023; प्रतिभूति के विवरण : संजय नगर, ब्लॉक–पी, सेक्टर–23, गाजियाबाद में स्थित संपत्ति सं. 21 के समस्त भाग तथा अंश, माप 95.28 वर्ग मीटर, लीज कम सेल डीड सं. 4002 दिनांक 28.03.2003 के अनुसार पंजीकृत, संपत्ति श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी गिरीश कुमार श्रीवास्तव के नाम पर है, जो इस प्रकार परिसीमित है : पूर्व– सर्कुलेशन, पश्चिम— संडक, उत्तर— प्लॉट नं. 22, दक्षिण— प्लॉट नं. 20

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : सश्री भवानी वस्त्र भंडार – भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरट जानी–250501 उत्तर प्रदेश –और साथ ही –रेवेन्यू विला जीई भोला मेरठ सिटी जानी यूपी जानी–250501 – प्रेमवती चंद्रा भोला रोड पर स्थित एक निवास स्थान भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – चंद्र प्रकाश गर्ग — भोला रोड भोला मेरठ जानी—250501 उत्तर प्रदेश — राधेश्याम गुप्ता — भोला रोड गांव भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – मधु सिंघल – भोला रोड भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश –अर्जुन गुप्ता –भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – अलका राधे – भोला रोड भोला मेरठ जानी-250501 उत्तर प्रदेश : ऋण खाता संख्या : 15562339 / 8550108: ऋण राशि : ऋण खाता संख्या 15562339 द्वारा रु. 418000 / — (चार लाख अटठारह हजार मात्र) और ऋण खाता संख्या 8550108 द्वारा रु. 2139717 / – (रुपये इक्कीस लाख उनतालिस हजार सात सौ संत्रह मात्र) तक मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु. 2305702/- (रुपये तेईस लाख पांच हजार सात सौ दो मात्र) और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : वह सभी आवासीय मकान, क्षेत्रफल 248 वर्ग गज, जो ग्राम भोला, तहसील और जिला मेरठ में स्थित तथा निम्नानसार परिसीमित है : पूर्व— 18 गज, फिर रमेश चंद और मुरारी लाल का मकान, पश्चिम— 14.5 गज, फिर लाला चतरभोज का घर, उत्तर- 18 गज, फिर रूप चंद नाई इत्यादि का घर, दक्षिण- 13 गज, फिर सडक

अतः आप उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को, इस सूचना के 60 दिनों के अंदर यहां इसमें उपर्युक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगकृत राशि का, पूर्ण भूगतान करने के लिये निर्देशित किया जाता है भुगतान करने में विफल होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिये अधिनियम व ु अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। (उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।) कृपया ध्यार दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित हैं और अधिनियम की धारा 13(13) की कोई भी अनुपालनहीनता, उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिये कृपया श्री अरुण यादव से फोन : 9350538386 पर तथा विकास आनंद से फोन : 09711010384

पर संपर्क करें। स्थान ः दिल्ली राराक्षे, दिनांक : 06-09-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

MGF द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 दूरभाष : 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. : 23274606 ई-मेल : mgfltd@hotmail.com वेबसाइट : http://www.mgfltd.com सीआईएन नं. : L74899DL1930PLC000208 जीएसटी नं. : 07AAACT2356D2ZN

93वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की जानकारी

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 93वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में पंजीकृत कार्यालय अर्थात एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और नवीनतम परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, कम्पनी ने 93वें एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में 4 सितम्बर, 2023 को भेज दी गयी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.mgfltd.com पर Annual Reports (https://www.mgfltd.com/Audited%20Results.html) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा साथ ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल' www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। तदनुसार एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का प्रयोग करके सदस्य द्वारा मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान

1. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर,2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों के नाम 'कट-ऑफ तिथि' यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा या एजीएम में ई-वोटिंग, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कटऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत करवाएं।

बक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनसरण में एतदवारा नोटिस भी दिया जाता है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित)

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 93वीं एजीएम की सूचना के नोट्स में उपलब्ध है और सदस्यों को भेजे गये ई-मेल में भी है। ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, तो ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 1800 22 5533 पर कॉल करके संबोधित किया जा सकता है।

> बोर्ड के आदेशानुसार द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड (एम.के. मदन) वीपी, सीएस और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 4 सितंबर, 2023 एसीएस-2951

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड सरफैसी अधिनियम. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना

.पंजीकृत कार्यालयः राधिका, २रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस, कजरिया टाइल्स के ऊपर, कुकरल पुल के निकट, जरिस्ता शोरूम के बगल में, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016 आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चक की हैं।

आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्सपित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई| राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभृतियों का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों का नामः संदीप कुमार माहेश्वरी, 8/8, एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना

संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, शशांक माहेश्वरी, 8/8 एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, विनीता माहेश्वरी, ऋण खाता सं. 13271289/6181072; ऋणराशिः ऋणखाता सं. 13271289 के द्वारा रु. 378405/- (रु. तीन लाख अठहत्तर हजार चार सौ पाँच मात्र) तथा ऋणखाता सं. 6181072 के द्वारा रु. 2000000/- (रु. बीस लाख मात्र); मांग सुचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः रु. 2019842/-(रु. बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालिस मात्र) 11.08.2023 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज, आदि के साथ उसकी वसूली तक आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभृति का विवरणः फ्लैट/मकान सं. ८, ब्लॉक-८, २रा तल, माप ८५.13 वर्ग मी., एचआईजी फ्लैट, प्रॉफेसर कॉलोनी, हरि पर्वत वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा जैसा कि उप-रजिस्ट्रार, आगरा के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 5166, पेज नं. 61/82 में क्रमांक 06 तिथि 01.01.2005 में विधिवत पंजीकृत श्री संदीप कुमार माहेश्वरी, पुत्र श्री आर. के माहेश्वरी के पक्ष में श्री कन्हैया लाल साहनी, पुत्र श्री चेतनराम सहनी द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री प्रलेख के अनुसार है। चौहद्दीः पूर्वः खुला, पश्चिमः सामूहिक सीढ़ी, निकास तथा उसके बाद 8/9 का दीवाल, उत्तरः ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम : हरियाणा पैलेस रेस्टोरेन्ट एंड बार प्राईवेट लिमिटेड फायर ब्रिगेड

कॉलोनी अलीगढ एचसीएल अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, साथ हीं: मकान सं. 5/146 ई, एरिया 208.6 वर्ग मी., खसरा नं. 190 तथा 191 का भाग जो फायर बिग्रेड कॉलोनी, गूलर अलीगढ़ में स्थित है तथा साथ हीं: मकान सं. 5/128, एरिया 36.37 वर्ग मी. जो फायर ब्रिगेड कॉलोनी, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला-अलीगढ़ में स्थित है, पवन कुमार-सराय लवरिया अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, राज कुमार अगरवाल, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, निमिशा अगरवाल-45, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, ऋण खाता सं. 6983379/ 15423319, ऋण राशिः रु. 5000000/-(रुपये पचास लाख मात्र) ऋण खाता सं. 6983379 द्वारा तथा रु. 945000/- (रु. नौ लाख पैंतालिस हजार मात्र) ऋण खाता सं. 15423319 द्वारा, मांग सूचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः 11.08.2023 को रु. 4927335/- (रु. उन्चास लाख सत्ताईस हजार तीन सौ पैंतीस मात्र तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ आगे का अनुबंधित ब्याज आदि, एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभूति का विवरणः मोहल्ला फायर ब्रिगेड कॉलोनी, गूलर रोड, कस्बा कोईल, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला अलीगढ़ 202001 में स्थित खसरा नं. 190 तथा 191 के भाग में मकान सं. 5/146 ई, एरिया 249.6 वर्ग यार्ड्स अथवा 208.6 वर्ग मीटर का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः पूर्वः कमलेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः प्लॉट एवं अज्ञात व्यक्ति का मकान, उत्तरः गूलर रोड 50 फीट, दक्षिणः प्रेमवती का मकान)

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे। (ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम

की धारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।) कपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिकी, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभृतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री कुश कपूर, फोन : 9838076150- विकास आनंद-9711010384

स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 06.09.2023 एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017 Tel. No.: 011-42181244, E-mail: genesis599@gmail.com, Website: www.genesisfinance.net

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

Company is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023, at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at 4 MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi -110017 to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said AGM. The electronic copies of Notice of 33rd AGM and Annual Report for the financial year 2022-23.

Instructions for e-voting, Proxy Form and Attendance Slip have been sent to members by e-mail whose e-mail IDs are registered with the company/depository and physical copies by permitted mode to the members at their registered address. The Notice and Annual Report for the financial year 2022-23 is also available on Company's website i.e. <u>www.genesisfinance.net</u>, on Stock Exchange's Website www.msei.in and also on CDSL website www.evotingindia.com. The dispatch of the Notice of the AGM will be completed on 05th September, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") the Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to all its members to exercise their vote at the 33th AGM by electronic means through e-voting services provided by CDSL ("remote e-voting").

Members may please note that the remote e-voting will commence on Wednesday, 27th September, 2023 at 10:00 A.M. and will end on Friday, 29th September, 2023 at 05:00 P.M. both days inclusive. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The cut-of date for determining the eligibility to vote by Electronic means or at the AGM is Saturday 23" September, 2023. Any person, who become a member after dispatch of notice and hold shares as on Saturday, 23rd September, 2023 being cut off date, may obtain login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The members whose name appear in the register of members/list of beneficial owners as on the Saturday, 23rd September, 2023, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at

In case of queries, members may contact Ms. Richa Bhardwaj, Compliance Officer at the above Registered Office, Phone:011-42181244, E-mail id: genesis599@gmail.com or the Registrar and Transfer Agents at the following address: Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1 Floor, Okhla Industrial Area Phase - 1, East of Kailash, New Delhi – 110020, Tel: 011-26812682-83 Fax:011-26812682, E-Mail ID: info@skylinerta.com

By order of the Board For Genesis Finance Company Limited

Richa Bhardwaj

Date: 05.09.2023 Place: New Delhi (Company Secretary and Compliance Officer)

X VIKAS ECŐTECH LTD. CIN: L65999DL1984PLC019465

Registered Office: 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 Tel No. 011 4314 4444 | Email: cs@vikasecotech.com Website: www.vikasecotech.com

Notice of Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of th

members of Vikas EcotechLimited will be held on Friday, September 29, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated Decembe 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2, CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM of the Company Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice and Annual Report

of 38thAGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Tuesday, September 5, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikasecotech.com Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive).

Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEB circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 38th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 38thAGM of the Company

In this regard, the members are hereby further notified that: The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the Annual General Meeting is September 22, 2023.

The remote E-voting period will commence from September 26, 2023 at 9:00 A.M

(IST) and will end on September 28, 2023 at 5:00 P.M.(IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the

Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54orsend an e-mail to ivote@bigshareonline.com A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of

Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also

attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in

f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

Date: September 5, 2023

Place: New Delhi

For Vikas Ecotech Limited Managing Director (DIN: 00255413)

दक्षिण रेलवे

सामग्री प्रबंध विभाग

नीलामी कार्यक्रम

कोचेज एवं लोकोज, स्क्रैप रैल्स तथा अन्य पर्मानेन्ट वे स्क्रैप सामग्री के निपटारे के लिये

सूचना सं. 10/2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से फेरस स्क्रैप, नान-फेरस स्क्रैप, अन्य विविध स्क्रैप, कंडम्ड वैगन,

ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। माह अक्टूबर 23 के लिये नीलामी की तिथि नीलामी की क्र. ई-नीलामी का सामग्री ∣सं. ∣संचालन, द्वारा GSD/PER |10.10.2023 |18.10.2023 |25.10.2023 |31.10.2023 ई-नीलामी में CSSD/GOC | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 31.10.2023 बिकी की जाने 05.10.2023 | 13.10.2023 | 27.10.2023 वाली मदों का MAS Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 विवरण SA Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 www.ireps.

6 TVC Division | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 27.10.2023

7 PGT Division | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 30.10.2023

8 TPJ Division | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 20.10.2023

9 MDU Division 04.10.2023 12.10.2023 20.10.2023

माह अक्टबर 23 के लिये नीलामी की कल सं.-32 नग

टिप्पणी: अधिशेष डीजल लॉकोज की ''जैसा है जहां है शर्त'' पर बिक्री की जाएगी। विस्तृत नियमों एवं

शर्तों तथा विवरणिका डाउनलोड करने के लिये कृपया हमारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in > E-Auction-> Sale->Live Auction देखें।

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

gov.in

वेबसाईट में

विवरिणका में

उपलब्ध होगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

आर्किडप्लाई डेकोर लिभिटेड

(सीआईएन: L20231UR2017PLC008626) पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ७, सेक्टर-७, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर,

ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड—263153, दूरभाषः 05944—250270, फैक्सः 05944—250269

कॉर्पो. कार्यालय: भूतल, एलिक्सिर, चांसरी पैवेलियन, 135 रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरू: 560025 दूरभाषः 08043714281, वेबसाइट www.archidplydecor.com, ई-मेल : bangalore@archidply.com

एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्दवारा सचित किया जाता है कि आर्किङप्लाई डेकोर लिमिटेड के सदस्यों की छठवीं (6वीं) वार्षिक आम सभ शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 12.30 बजे अप. में इसके पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.7, सेक्टर—9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड–263153 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन)

नियमावली, 2014, समय–समय पर यथा–संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ रविवार, 24 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ छठवीं (6वीं)ं एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी

जा चुकी है, जिनके ईमेल पते कंपनीधंडिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी गयी हैं जिनके ईमेल पते कंपनीधिडपॉजिटरी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा समय—समय पर यथा—संशोधित सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर

इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

आगे. पोल/बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे पोल/बैलट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कम्पनी की एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वार मतदान की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जायेगी।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मैसर्स रजनीश शर्मा एंड कं, के प्रॉप्नाईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियक्त सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

कम्पनी की 6वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

मतदान तथा एजीएम में पोलध्पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होंगे। . रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर, 2023 को (10.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2023 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी,

ii. कट—ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 है iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को शेयर्स धारित करता है, व helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का उल्लेख करते हुए 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट

ई-वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु" [आरटीए/डीपी]

के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर

सदस्य कृपया ध्यान दें कि

प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे,

क. 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ख. ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में पोल/बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने में सक्षम होंगे।

ग. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। घ. केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

vi. कम्पनी की 6वीएजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (Swww.archidplydecor.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट(www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। vii. एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन

कुण्डेर (022–23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। viii. ई–वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स'

खण्ड का सन्दर्भ लें। आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड के लिये

स्थानरू बेंगलुरू शिवा किरन मवूरी तिथिरू 05.09.2023 कम्पनी सचिव इंडियन ओवरसीज बेंक

5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002 सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के अंतर्गत उधारकर्ताओं /

बंधककर्ताओं / गारंटरों हेतु मांग सूचना स्थान : दिल्ली दिनांक : 22.08.2023

श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी बी-4 बायीं ओर का भाग मानसरोवर गार्डन दिल्ली-110015 प्तंदर्भ : इंडियन ओवरसीज बैंक, दरिया गंज शाखा के पास आपकी ऋण सुविधायें।

आप, उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं ने हमारी दरिया गंज शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधायें बकाया देयराशियों के साथ ऋण सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

कुल देयराशियां* 22.08.2023 के अनुसार (रु. में) ₹. 39,51,590 / -001703452000066 ₹. 39,51,590 / -

*संविदागत दरों / शेषों पर भावी ब्याज के साथ राशि, उपरोक्त अंकित तिथि से भगतान की तिथि तक न्क्रण सुविधायें, उधारकर्ता सं. 1 के नाम में दुष्टिबंधन के माध्यम से निम्न वर्णित परिसंपत्तियों द्वारा

प्रतिभूतियों के विवरण (अवस्थिति के साथ पूर्ण विवरण, चार सीमायें, चार दिशाओं

प्रतिभत थीं। आपने, अपने द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से निम्नलिखित लेन–देन के तहत देनदारियों की समय-समय पर पावती स्वीकार की है। 2. उपर्यक्त ऋण सविधाओं के लिये बैंक के पक्ष में प्रतिभतियों के विवरण इस प्रकार हैं

पर मापन, कुल विस्तार तथा स्वामी का नाम जो प्रविष्ट किया जाना है) कार टोयोटा फॉर्च्यूनर प्लेटिनम व्हाइट पर्ल का दृष्टिबंधन पंजीकरण सं: DL8CBE5991 इंजन संख्या : 1GDA690941 चेसिस नं: MBJAA3GS100577686~1122

अधिकार सुरक्षित है।

3. उपर्युक्त नामित उधारकर्ताओं द्वारा अनुबंधित शर्तों के अनुसार मूल ऋण / ब्याज के भुगतान में चूक किये जाने के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनसार 29.07.2023 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके खाते के नियमितीकरण के लिये हमारे अनुस्मारकों के बाद भी, आप ने अतिदेय ऋणों का उन पर नियत ब्याज सहित प्रतिभूगतान नहीं किया है।

चुंकि आप उपरोक्त नामित उधारकर्तागण, जिन्हें क्र. सं. 1 के तहत संदर्भित किया गया है, यहां ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रतिभतियों द्वारा विधिवत सरक्षित ऋण सविधाओं के संबंध में देनदारियों को परा करने में विफल रहे हैं और आपके खाते को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने पर, हम एतद्द्वार आप में से नंबर 1 को दिये गये अपने अग्रिमों को वापस लेने का आहवान करते हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत आपको सुचित करते हैं और आपको इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उपरोक्त पैरा 1 में विवरणितानुसार रु. 39,51,590 / – का, उपरोक्त अंकित तिथि से, अनुबंधितानुसार मासिक शेषों के साथ चक्रवृद्धिकृत पैराग्राफ । में अंकित आरओआई की दर पर भावी ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान

करने और अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए कहते हैं। 5. हम आगे उधारकर्ता नामतः श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह (दृष्टिबंधककर्ता) को सूचित करते हैं, जिन्होंने सरफॉएसि अधिनियम के तहत प्रवर्तनयोग्य गैर-कृषि-प्रतिभृतियों को दिया है और जो कि भुगतान की तिथि तक ब्याज और शुल्कों इत्यादि के साथ उपरोक्त राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल हो चुके हैं, हम उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत हमारे पास निहित सभी अधिकारों अथवा उनमें से किसी एक अधिकार का प्रयोग करेंगे।

6. कुपया ध्यान दें कि विधि के अंतर्गत उधारकर्ताओं को पृथक रूप में भावी ब्याज तथा शुल्कों इत्यादि के साथ बकाया देयराशियों का प्रतिभूगता करना है।

7. कृपया ध्यान दें कि ब्याज जो है वह पूर्ण प्रतिभूगतान होने तक प्रत्येक ऋण सुविधा हेतू अनुबंधितानुसार दरों एवं शेषों पर निरंतर उपार्जित होता रहेगा। 8. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके

अनुसार आपको, हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी सूरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने/अलग करने/स्थानांतरित करने से रोका जाता है। कृपया यह भी ध्यान दें कि उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना / उनका उल्लंघन करना एक अपराध है, जो अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावार और / या जुर्माना के साथ दंडनीय है।

हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि खाते को निर्धारित समय के भीतर नियमित नहीं किया जाता है / चुकाया नहीं जाता है और यदि बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, तो इस स्थिति में बैंक, वसूली के लिये बैंक के पास उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अलावा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके नाम, पते, चूक के विवरण, देय राशि, इत्यादि के साथ समाचार-पत्र(त्रों) में आपकी फोटो प्रकाशित करने का अधिकार

सूरक्षित रखता है। 10. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकार या उपचार की छट के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि उपरोक्त बकाया राशि की वसली के

साथ-साथ आपके द्वारा देय एवं भगतानयोग्य बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने के हमारे अधिकार के रूप में हमारे पास है। 1. इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com